

खाड़ी देशों के साथ भारत का रणनीतिक सहयोग

यह एडिटरियल 22/12/2024 को द हद्वि में प्रकाशित [“India, Kuwait poised to transform relationship into strategic partnership”](#) पर आधारित है। इस लेख में भारत और कुवैत के बीच उन्नत रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया गया है, जो ऊर्जा व्यापार से आगे बढ़कर रक्षा, प्रौद्योगिकी एवं बुनियादी अवसंरचना को भी शामिल करता है। यह बदलाव खाड़ी में भारत के बढ़ते प्रभाव को उजागर करता है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिये महत्वपूर्ण है।

प्रलिस के लिये:

[खाड़ी क्षेत्र, भारत और कुवैत, होरमुज़ जलडमरूमध्य, अमेरिका और ईरान, यमन गृह युद्ध, पेट्रोलियम नरियातक देशों का संगठन, भारत की कच्चे तेल की मांग, यूरोपीय संघ, वंदे भारत मशिन, भारत-फ्रांस- UAE हवाई युद्ध अभ्यास \(डेज़र्ट नाइट\), I2U2 \(भारत-इजरायल- UAE-यूएसए\), हमास-इजरायल युद्ध, गाज़ा में युद्ध वरिष्ठ के लिये संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव, फलिसितीन मुद्दा, चीन की बेल्ट एंड रोड पहल](#)

मेन्स के लिये:

भारत के लिये खाड़ी क्षेत्र का महत्त्व, भारत और खाड़ी के बीच टकराव के प्रमुख क्षेत्र।

भारत और कुवैत ने अपने सदियों पुराने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया है, जो चार दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत की पहली यात्रा है। यह साझेदारी पारंपरिक ऊर्जा व्यापार गतिशीलता से आगे निकल गई है, जिसमें कुवैत के पास वैश्विक तेल भंडार का 6.5% हिस्सा है और यह भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है, जिसमें रक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी अंतरण और बुनियादी अवसंरचना का विकास शामिल है। यह रणनीतिक उन्नयन **खाड़ी क्षेत्र** में व्यापक भू-राजनीतिक बदलावों को दर्शाता है, जहाँ भारत का बढ़ता आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि के लिये तेजी से महत्वपूर्ण हो गया है।

खाड़ी क्षेत्र क्या है?

- **खाड़ी क्षेत्र के संदर्भ में:** खाड़ी क्षेत्र, जिसे फारस की खाड़ी क्षेत्र या अरब की खाड़ी क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, फारस की खाड़ी के आसपास के क्षेत्र को संदर्भित करता है, जो अरब प्रायद्वीप और दक्षिण-पश्चिमी ईरान के बीच स्थित हिंद महासागर का एक सीमांत सागर है।
- **खाड़ी क्षेत्र की मुख्य विशेषताएँ:**
 - **भूगोल:** इसमें फारस की खाड़ी के सीमावर्ती देश शामिल हैं: बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE)।
 - **सामरिक महत्त्व:** फारस की खाड़ी **होरमुज़ जलडमरूमध्य** के माध्यम से ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जुड़ी हुई है, जो वैश्विक तेल परिवहन के लिये एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है।
 - खाड़ी भू-राजनीतिक तनावों का केंद्र है, जिसमें **अमेरिका और ईरान के बीच विवाद**, सऊदी-ईरान प्रतिद्वंद्विता और **यमन गृह युद्ध** शामिल हैं।
- **आर्थिक विविधीकरण के प्रयास:** सऊदी अरब और UAE जैसे देश प्रौद्योगिकी, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के माध्यम से तेल पर निर्भरता कम करने के लिये आर्थिक विविधीकरण योजनाओं (जैसे, सऊदी अरब का **वज़िन- 2030**) का अनुसरण कर रहे हैं।
- **वैश्विक प्रभाव:** खाड़ी देश **पेट्रोलियम नरियातक देशों के संगठन (OPEC)**, **G-20** और **संयुक्त राष्ट्र** जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में प्रभावशाली भागीदार हैं।
 - वे महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं वित्तीय केंद्र (जैसे, **दुबई, अबू धाबी, दोहा**) हैं और वहाँ विशेष रूप से दक्षिण एशिया से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक रहते हैं।



भारत के लिये खाड़ी क्षेत्र का क्या महत्त्व है?

- **ऊर्जा सुरक्षा:** खाड़ी क्षेत्र भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण है, जसिने सत्र 2022-23 में [भारत की कच्चे तेल की मांग की 55.3%](#) की पूर्ता की है और यूक्रेन युद्ध के बाद रूसी आयात में वृद्धि के कारण आई गरीबत से उबर रहा है।
 - हाल के समझौते, जैसे कि [कतर के साथ वर्ष 2048 तक प्रतिवर्ष 7.5 मिलियन टन LNG](#) आयात करने के लिये 78 बिलियन डॉलर का समझौता, आर्थिक विकास और ऊर्जा परिवर्तन को बनाए रखने के लिये खाड़ी संसाधनों पर भारत की निर्भरता को रेखांकित करते हैं।
- **व्यापार और आर्थिक संबंध:** खाड़ी भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापारिक साझेदार है, जसिने वित्त वर्ष 2022-23 में [कुल व्यापार में 15.8% का योगदान](#) दिया, जो [यूरोपीय संघ](#) के साथ व्यापार से अधिक है।
 - संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, तथा सऊदी अरब भारत के बुनियादी अवसंरचना और वननिर्माण क्षेत्रों में चौथे स्थान पर है।
 - इन सहयोगों के परिणामस्वरूप विश्वास-निर्माण हुआ है, जसिका उदाहरण 44 बिलियन डॉलर की रत्नागरी रफाइनरी जैसी संयुक्त अवसंरचना परियोजनाएँ और क्षेत्रीय स्थिरता पर सक्रिय वार्ता है।
- **प्रवासी और धन प्रेषण:** लगभग 8.8 मिलियन भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं, जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं तथा भारत में प्रतिवर्ष लगभग 60 बिलियन डॉलर का धन प्रेषण करते हैं।
 - यह प्रवासी आबादी भारत-खाड़ी संबंधों में एक महत्त्वपूर्ण सेतु का काम करती है, विशेषकर कोविड-19 महामारी जैसे संकट के दौरान, जब भारत ने [वंदे भारत मशिन](#) के तहत प्रत्यावर्तन की सुविधा प्रदान की थी।
- **सामरिक और रक्षा सहयोग:** [डेजरट फ्लैग \(UAE\)](#) जैसे द्विपक्षीय अभ्यास और [भारत-फ्रांस- UAE हवाई युद्ध अभ्यास \(डेजरट नाइट\)](#) जैसे त्रिपक्षीय सहयोग के साथ रक्षा संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं।
 - प्रमुख समुद्री चौकियों से खाड़ी की नकटता, अदन की खाड़ी और अरब सागर की सुरक्षा के लिये भारत की "मशिन-आधारित नौसैनिक तैनाती" में इसके महत्त्व को सुनिश्चित करती है।
- **उभरते भू-आर्थिक फ्रेमवर्क:** भारत कनेक्टिविटी बढ़ाने और व्यापार मार्गों में विविधता लाने के लिये [भारत-इजरायल- UAE-यूएसए \(I2U2\)](#) और [भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर \(IMEC\)](#) जैसी पहलों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।


- **हमास-इजरायल युद्ध** की चुनौतियों के बावजूद, ये रूपरेखाएँ क़्षेत्र में भारत के बढ़ते भू-आर्थिक प्रभाव का प्रतीक हैं।
- **गैर-तेल व्यापार और प्रौद्योगिकी:** भारत और खाड़ी क़्षेत्र व्यापार में वविधिता ला रहे हैं, जसिमें प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क़्षेत्र केंद्र बनिदु के रूप में उभर रहे हैं।
 - उदाहरणों में 'मेड इन इंडिया' ऑटोमोबाइल का बढ़ता नरियात और UAE का 15.3 बलियिन डॉलर का FDI शामिल है, जो इसे भारत में नविश का 7वाँ सबसे बड़ा स्रोत बनाता है।
 - इसके अलावा, हाल ही में वर्ष 2024 IPL की नीलामी सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजति की गई थी, जो पहली बार देश में इस पैमाने का क्रिकेट आयोजन आयोजति कया गया था।

भारत और खाड़ी के बीच टकराव के प्रमुख क़्षेत्र कौन-से हैं?

- **भू-राजनीतिक संरेखण और भनिन हति: I2U2 (भारत-इजरायल- UAE-USA)** में भागीदारी और रक़्षा सहयोग सहति इजरायल के साथ भारत के बढ़ते संबंध, कभी-कभी **फ़लिसितीन मुद्दे** के प्रतसिंवेदनशील खाड़ी देशों के बीच असहजता उत्पन्न करते हैं।
 - जबकि भारत ने **द्वि-राज्य समाधान का समर्थन** कया है, वशिष रूप से वर्ष 2023 के हमास-इजरायल युद्ध के दौरान खाड़ी देशों द्वारा **इजरायल की कार्रवाइयों की आलोचना**, भारत के अधिक तटस्थ रुख के वपिरीत है जसिसे रणनीतिक तनाव उत्पन्न होने का खतरा है।
 - उदाहरण के लयि, भारत ने **गाज़ा में युद्ध वरिष के लयि संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव** पर मतदान में हसिंसा नहीं लयि, इस नरिणय पर खाड़ी भागीदारों की ओर से मली-जुली प्रतकिरयि आई।
- **ऊर्जा आपूर्ति की कमज़ोरयि:** यूकरेन युद्ध के बाद भारत द्वारा तेल आयात में वविधिता लाने से, जसिमें वर्ष 2024 में भारत के कच्चे तेल के आयात का 55% हसिंसा रूस द्वारा पूरा कया जा रहा है, खाड़ी देशों की हसिंसेदारी कम हो गई है।
 - जबकि मध्य पूर्व के तेल आयात में वर्ष 2023 के मध्य में वृद्धि हुई है, खाड़ी आपूर्तिकर्त्ताओं को प्रतसिंप्रद्धा का सामना करना पड़ रहा है, जसिसे भारत के ऊर्जा बाज़ार पर उनका पारंपरिक प्रभुत्व प्रभावति हो रहा है।
 - **जापान और ऑस्ट्रेलया जैसे देशों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा और हरति हाइड्रोजन साझेदारी** पर भारत का ध्यान, भारत के ऊर्जा परदृश्य में खाड़ी की भूमिका को और कम कर सकता है।
- **व्यापार और FTA वारता में गतरिोध:** वर्ष 2022 में **खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)** के साथ **मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** के लयि वारता को पुनरजीवति करने की घोषणाओं के बावजूद, टैरफि कटौती और गैर-तेल व्यापार वविधीकरण पर असहमति के कारण प्रगति धीमी रही है।
 - GCC के साथ व्यापार भारत के कुल व्यापार का 15.8% है, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स जैसे क़्षेत्रों को मूल्य नरिधारण नीतयिों और बाज़ार अभिगम प्रतबिंधों सहति बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- **समुद्री सुरक़्षा और रणनीतिक अंतराल:** जबकि भारत अरब सागर में **समुद्री सुरक़्षा** में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिता है, समनवति समुद्री डकैती वशिधी अभयिानों और क़्षेत्रीय नौसैनिकि साझेदारयिों में अंतराल बना हुआ है, जसिका आंशकि कारण खाड़ी देशों की **अमेरिका के नेतृत्व वाली सुरक़्षा रूपरेखा पर नरिभरता** है।
 - **लाल सागर** और अदन की खाड़ी में तनाव के प्रतयुत्तर में वर्ष 2024 में भारतीय नौसेना द्वारा **12 जहाज़ों की तैनाती** भारत की प्रतबिद्धता को रेखांकति करती है, लेकिन क़्षेत्रीय सुरक़्षा नीतयिों पर इसके सीमति प्रत्यक़्ष प्रभाव को भी उजागर करती है।
 - **संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के साथ द्विपिक्षीय नौसैनिकि अभ्यास** जैसी पहल आगे की दशिा में उठाया गया कदम है, लेकिन यह पूरी तरह से एकीकृत खाड़ी-भारत समुद्री सुरक़्षा सहयोग से पीछे है।



- **प्रवासी-संबंधी वीजा और रोज़गार नीतियाँ:** खाड़ी देश **सऊदी अरब के वज़िन-2030** और **UAE के अमीरातीकरण** जैसी **राष्ट्रीयकरण नीतियों को प्राथमिकता** दे रहे हैं, जिनका उद्देश्य भारतीयों सहित विदेशी श्रमिकों पर निर्भरता कम करना है।
 - इस बदलाव से **8.8 मिलियन भारतीय प्रवासियों की आजीविका को खतरा** है, जिनके द्वारा प्रतर्विष भेजी जाने वाली धनराशि **60 बिलियन डॉलर** है तथा जो भारत की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है।
 - उदाहरण के लिये, **सऊदी अरब की नताकत नीति** के कारण वीजा नयिम कड़े हो गए हैं, जिसके कारण कुछ भारतीय कामगारों को या तो स्वदेश लौटना पड़ा है या कम वेतन वाली नौकरियाँ करनी पड़ी हैं।
 - इसके अलावा, वेतन में वलिंब और असुरक्षित कार्य स्थितियों के मामलों ने, विशेष रूप से **वर्ष 2022 फीफा विश्व कप के दौरान**, घरेलू और वैश्विक छंटनी को जन्म दिया है।
- **आर्थिक गलियारा और संपर्क प्रतदिवंदवति:** जबकि भारत, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) में एक प्रमुख भागीदार है, वहीं **चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI)** पर खाड़ी देशों का ध्यान क्षेत्रीय संपर्क के लिये प्रतसिपर्द्धात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है।
 - उदाहरण के लिये, **वर्ष 2024 में चीन के साथ सऊदी अरब का 50 बिलियन डॉलर का समझौता** इसकी रणनीतिक धुरी को रेखांकित करता है, जो बीजागि के नेतृत्व वाली रूपरेखाओं से परे **विविधीकरण की भारत की प्राथमिकता के विपरीत** है।
 - इन प्रतसिपर्द्धी गठबंधनों के कारण **IMEC जैसी संयुक्त पहल कमज़ोर** पड़ने और भू-राजनीतिक जटिलताओं के कारण कार्यान्वयन में वलिंब होने का खतरा है।



- **सीमा सुरक्षा और अवैध व्यापार:** यमन जैसे संघर्ष कक्षेत्रों के साथ खाड़ी की नकटता के कारण भारत की समुद्री सीमाओं में अवैध हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी चुनौतियाँ उत्पन्न हो गई हैं।
 - समुद्री चौकियों की नगिरानी में भारत के पर्यासों के बावजूद, वर्ष 2022 जैसी घटनाओं में, 10 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही एक पाकस्तानी नाव, हथियार, गोला-बारूद और 300 करोड़ रुपए मूल्य के 40 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ, गुजरात तट पर रोक दी गई, जिससे खाड़ी भागीदारों के साथ समन्वित सुरक्षा पर्यासों में हुई कमी पर प्रकाश डाला गया।
 - एक संरचित GCC-भारत तस्करी वरिधी फ्रेमवर्क की कमी इस कक्षेत्र में कमजोरियों को और बढ़ा देती है।
- **खाद्य सुरक्षा और कृषि नीतियाँ:** खाड़ी देश खाद्य आयात पर बहुत अधिक निर्भर हैं, लेकिन भारत द्वारा गेहूँ और चावल के निर्यात पर लगातार प्रतिबंध, जैसा कि वर्ष 2022 और 2023 के मुद्रास्फीति दिवनों के दौरान देखा गया है, संबंधों में तनाव उत्पन्न करता है।
 - उदाहरण के लिये, वर्ष 2023 में गैर-बासमती चावल के निर्यात पर भारत के प्रतिबंध से खाड़ी बाजारों में व्यवधान उत्पन्न हो गया, जो अपनी खाद्य आपूर्ति शृंखलाओं के लिये भारतीय खाद्य वस्तुओं पर निर्भर हैं।
 - दीर्घकालिक, स्थिर खाद्य व्यापार समझौते का अभाव अनिश्चितताओं को जन्म देता है, जिसका प्रभाव खाड़ी उपभोक्ताओं और भारतीय किसानों दोनों पर पड़ता है।
- **साइबर सुरक्षा और डिजिटल शासन:** खाड़ी देशों ने प्रायः पश्चिमी मानकों को अपनाते हुए या चीन की डिजिटल पहलों के साथ सहयोग करते हुए, विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात ने साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क में काफी प्रगति की है जो भारत के स्वदेशी दृष्टिकोणों के साथ संघर्ष कर सकते हैं।
 - डेटा स्थानीयकरण कानूनों और डिजिटल पारिस्थितिकी प्रणालियों पर सख्त नियंत्रण के लिये भारत का पर्यास, वैश्विक व्यापार को सुवर्धित बनाने के लिये खाड़ी देशों की मुक्त प्रणालियों पर निर्भरता के साथ टकराव उत्पन्न करता है।
 - उदाहरण के लिये, चीन के डिजिटल सलिक रोड में संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देशों सहित भारत को शामिल न करना, डिजिटल सहयोग में उभरते अंतराल को उजागर करता है।

खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **तेल से परे ऊर्जा सहयोग को गहन करना:** क्रेता-वकिरेता संबंध से ध्यान हटाकर ऊर्जा में सह-विकास मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये, जैसे कि हरित हाइड्रोजन, सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में संयुक्त उद्यम।
 - उदाहरण के लिये, भारत खाड़ी देशों के साथ मलिकर हरित हाइड्रोजन सुविधाओं का विकास कर सकता है, जिससे उनकी वित्तीय पूंजी और सौर ऊर्जा में भारत की तकनीकी बढ़त का लाभ उठाया जा सके।
 - राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जैसी पहलों के तहत भारत के नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी अवसंरचना में निवेश करने के लिये संयुक्त अरब अमीरात के मुबाडाला और सऊदी अरब के PIF जैसे खाड़ी संप्रभु धन कोषों (SWF) को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- **FTA के माध्यम से आर्थिक साझेदारी को मज़बूत करना:** फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी जैसे कक्षेत्रों में व्यापार क्षमता के लिये खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ता को गति दी जानी चाहिये।
 - मुख्य खाद्य व्यापार स्थिरता के लिये दीर्घकालिक रूपरेखा वकिसति किया जाना चाहिये, चावल और गेहूँ जैसे भारतीय निर्यात पर निर्भर खाड़ी देशों के लिये निरिबाध आपूर्ति शृंखला सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
 - भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ अपने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) का उपयोग अन्य खाड़ी देशों के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिये एक टेम्पलेट के रूप में कर सकता है।

- **समुद्री एवं रसद अवसंरचना का सह-विकास:** भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) जैसी पहलों का लाभ उठाते हुए समुत्थानशील और कुशल समुद्री गलियारों के निर्माण पर खाड़ी देशों के साथ सहयोग किया जाना चाहिये।
 - आपूर्ति शृंखलाओं को सुव्यवस्थिति करने तथा अफ्रीका और यूरोप से संपर्क बढ़ाने के लिये प्रमुख खाड़ी बंदरगाहों (जैसे, दुबई, जेद्दा) में संयुक्त लॉजिस्टिक्स केंद्र स्थापित किया जाना चाहिये।
 - उदाहरण के लिये, **भारतीय IT विशेषज्ञता** और खाड़ी पूंजी का उपयोग करके स्मार्ट बंदरगाहों का सह-विकास आर्थिक एवं रणनीतिक अंतरनिर्भरता को मज़बूत किया जा सकता है।
- **रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना:** होरमुज़ जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण अवरोधक बंदरगाहों की सुरक्षा करने तथा अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती से निपटने के लिये संयुक्त नौसैनिक कार्य बलों की स्थापना करके समुद्री सुरक्षा पर सहयोग किया जाना चाहिये।
 - भारत की IT क्षमताओं और डिजिटल बुनियादी अवसंरचना में खाड़ी देशों के निवेश का लाभ उठाते हुए साइबर खतरों का संयुक्त रूप से मुकाबला करने के लिये साइबर सुरक्षा समझौते विकसित किया जाना चाहिये।
- **प्रवासी कूटनीति का लाभ उठाना:** रोज़गार, धन प्रेषण और श्रम अधिकारों जैसे मुद्दों को सहयोगात्मक रूप से हल करने के लिये खाड़ी-भारत प्रवासी परिषद की स्थापना की जानी चाहिये।
 - कुशल श्रमिकों की गतिशीलता के लिये द्विपक्षीय समझौतों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये, स्वास्थ्य सेवा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों, जहाँ खाड़ी देशों को कमी का सामना करना पड़ रहा है, पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
 - उदाहरण के लिये, **भारत की ई-माइग्रेट प्रणाली का दायरा** बढ़ाकर इसमें खाड़ी श्रम बाज़ार के पूर्वानुमानों को शामिल किया जाएगा, जिससे कुशल भारतीय श्रमिकों का सुगम प्रवाह संभव हो सकेगा।
- **स्वास्थ्य देखभाल और फार्मास्यूटिकल्स में सहयोग का विस्तार:** खाड़ी देशों में फार्मा हब का सह-विकास किया जाना चाहिये, जिससे संयुक्त उत्पादन सुविधाओं के माध्यम से भारतीय जेनेरिक दवाओं और टीकों तक तेज़ी से पहुँच सुनिश्चित हो सके।
 - भारतीय औषधि निर्यात के लिये वनियामक अनुमोदन को सरल बनाया जाना चाहिये, खाड़ी-व्यापी स्वास्थ्य सेवा समझौते के तहत त्वरित मार्ग तैयार किया जाना चाहिये।
 - उदाहरण के लिये, भारत पश्चिम एशियाई और अफ्रीकी बाज़ारों की जरूरतों को पूरा करने के लिये खाड़ी देशों में वैक्सीन निर्यात इकाइयाँ स्थापित कर सकता है।
- **खाद्य एवं जल सुरक्षा संबंधों को बढ़ाना:** कृषि-तकनीक समाधानों पर साझेदारी करना, जैसे कि फसल विविधीकरण में भारतीय विशेषज्ञता का उपयोग करना तथा खाद्य उत्पादन एवं आपूर्ति शृंखलाओं को बढ़ाने के लिये खाड़ी देशों से वित्तपोषण प्राप्त किया जाना चाहिये।
 - जल की कमी को साझा चुनौतियों का समाधान करते हुए, अलवणीकरण और जल संरक्षण प्रौद्योगिकियों का सह-विकास किया जाना चाहिये।
 - भारत इन प्रयासों को अरब प्रायद्वीप जैसे क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिये संयुक्त अरब अमीरात के जल गठबंधन के साथ सहयोग कर सकता है।
- **जलवायु लक्ष्यों और स्थिरता पर समन्वय:** कार्बन कैप्चर, सौर वलिवणीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में सह-निवेश के लिये खाड़ी-भारत स्थिरता मंच का विकास किया जाना चाहिये।
 - भारत के ऊर्जा परिवर्तन और खाड़ी देशों की विविधीकरण रणनीतियों के साथ तालमेल बढाते हुए, स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान, विशेष रूप से हाइड्रोजन और जैव ईंधन में पहल को संयुक्त रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
 - उदाहरण के लिये, **भारत वृक्षारोपण** और रेगिस्तान को हरा-भरा बनाने की प्रौद्योगिकियों के विस्तार के लिये सऊदी अरब की हरित पहल में उसके साथ साझेदारी कर सकता है।
- **बहुपक्षीय सहभागिता को सुदृढ़ बनाना:** ऊर्जा मूल्य निर्धारण, जलवायु परिवर्तन और व्यापार में साझा हितों के समर्थन के लिये G20, संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) जैसे वैश्विक मंचों पर खाड़ी देशों के साथ दृढ़ समन्वय का निर्माण किया जाना चाहिये।
 - उदाहरण के लिये, **भारत की 2023 G20 अध्यक्षता** और वैश्विक ऊर्जा प्रशासन पर सऊदी अरब एवं UAE के साथ साझेदारी ने गहन बहुपक्षीय संबंधों की संभावना को प्रदर्शित किया।
- **सांस्कृतिक और शैक्षिक कूटनीति - प्रमुख खाड़ी शहरों में BAPS हट्ट मंदिर अबू धाबी** जैसे भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना किया जाना चाहिये, ताकतियोंहारों, भाषा प्रशिक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के माध्यम से लोगों के बीच संबंधों को गहरा किया जा सके।
 - खाड़ी देशों में भारतीय विश्वविद्यालयों की शाखाएँ खोलकर शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जाना चाहिये, जिससे भारतीय प्रवासियों और खाड़ी नागरिकों दोनों को लाभ मिल सके।
 - उदाहरण के लिये, **STEM-केंद्रित शिक्षा कार्यक्रमों का सह-विकास** खाड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कौशल की कमी को दूर कर सकता है, साथ ही भारत की सॉफ्ट पावर को भी बढ़ा सकता है।

नभिकरषः

भारत-कुवैत संबंधों का रणनीतिक उन्नयन भारत-खाड़ी संबंधों में एक परिवर्तनकारी चरण को दर्शाता है, जो समकालीन चुनौतियों और अवसरों का संतुलन बनाने के लिये सदियों पुराने संबंधों का लाभ उठाता है। ऊर्जा, व्यापार, रक्षा एवं प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करके, भारत और खाड़ी वैश्विक व क्षेत्रीय गतिशीलता के साथ अपनी पूरी क्षमता का लाभ उठा सकते हैं। जन-जन के बीच संबंधों को मज़बूत करना और साझा विकास लक्ष्यों को अपनाना उनकी साझेदारी में दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करेगा।

प्रश्न: भारत के लिये खाड़ी क्षेत्र के महत्त्व पर चर्चा करें तथा क्षेत्रीय चुनौतियों के बीच इस साझेदारी को मज़बूत करने के लिये रणनीति सुझाएँ

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

????????

प्रश्न. नम्नलिखित में से कौन 'खाडी सहयोग परिषद् (गल्फ को-ऑपरेशन काउन्सिल)' का सदस्य नहीं है? (2016)

- (a) ईरान
- (b) सऊदी अरब
- (c) ओमान
- (d) कुवेत

उत्तर: (a)

??????

प्रश्न. भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगतिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाग है। पश्चिमि एशियाई देशों के साथ भारत के ऊर्जा नीति सहयोग का वश्लेषण कीजिये। (2017)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-s-strategic-collaboration-with-gulf>

